

Roll No.

73101

M.A. (Economics) 2nd Semester

Examination-May, 2014

Micro Economics-II

Paper-P-VI

Time : 3 hours

Max. Marks : 80

Before answering the questions, candidates should ensure that they have been supplied the correct and complete question paper. No complaint in this regard will be entertained after the examination.

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले, परीक्षार्थी, यह सुनिश्चित कर लें कि उनको पूर्ण एवं सही प्रश्न-पत्र मिला है। परीक्षा के उपरान्त इस बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी जायेगी।

Note : Attempt five questions in all selecting one question from each unit. Q. No. 9 in Unit V is **compulsory**. All questions carry equal marks.

नोट : प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्न कीजिए। यूनिट 5 का प्रश्न नं. 9 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

73101-800-(P-7)(Q-9)(14)

(1)

Download Study Material from StudentSvaidha.com

Unit-I

इकाई-I

1. What are main characteristics of Oligopoly Market ? Explain Cournot Model and its major limitations. 4, 12

ओलिगोपोली मार्किट की मुख्य विशेषताएँ बताएं। कॉर्नोट मॉडल और इसकी मुख्य सीमाओं का वर्णन कीजिए।

2. Explain the model of Joint profit maximization. What is the rationality of such type of model in today's context, if any. 12,4

संयुक्त लाभ अधिकता के मॉडल का वर्णन कीजिए। आज के युग में इस प्रकार के मॉडल की संगतता, यदि कोई है, तो बताएं।

Unit-II

इकाई-II

3. Critically examine the Morris model of firm equilibrium. 16

73101-800-(P-7)(Q-9)(14) (2)

मॉरिस मॉडल की फर्म संतुलनता की आलोचनात्मक जाँच कीजिए।

4. What is meant by limit pricing in the Bain theory ? Give justification of the limit pricing theory over the pure profit maximization approach. 10, 6

बैन सिद्धान्त में मूल्यांकन सीमा से आपका क्या अभिप्रायः है ? सीमित मूल्यांकन सिद्धान्त की शुद्ध अधिकतम लाभ प्रस्ताव पर अधिकता की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

Unit-III

इकाई-III

5. What is meant by Labour market ? How the wage rate is determined when there is perfect competition in labour market and imperfect competition in product market ? 16

73101-800-(P-7)(Q-9)(14) (3)

[Turn Over

लेबर मार्किट से क्या अभिप्राय: है? जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा उत्पाद मार्किट में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो ऐसे में पारिश्रमिक का निर्धारण किस प्रकार होगा?

6. (i) Define product exhaustion problem Explain it with the help of Cobb-Douglas Production Function. 8

उत्पाद समापन समस्या को परिभाषित कीजिए। इसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की सहायता से वर्णन करें।

(ii) Discuss classical approach of rate of interest determination. 8

ब्याज दर निर्धारण की आदर्श प्रस्तावना पर वार्ता कीजिए।

Unit-IV

इकाई-IV

7. What are the conditions of Pareto Optimality? What are major limitations of Pareto optimal conditions? 16

73101-800-(P-7)(Q-9)(14) (4)

पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की क्या अवस्थाएं हैं? इन अवस्थाओं की मुख्य सीमाएं क्या हैं?

8 What are main causes of market failures? How we can correct the market failure? 16

मार्किट असफलता के मुख्य कारण क्या हैं? हम किस प्रकार इस पर नियन्त्रण पा सकते हैं?

Unit-V

इकाई-V

9. Answer the following questions briefly (30-40 words):

$$8 \times 2 = 16$$

निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। (30-40 शब्दों में)

(i) What is Kinked demand curve?

किंकड डिमांड कर्व किसे कहते हैं?

73101-800-(P-7)(Q-9)(14) (5)

[Turn Over

(ii) Define Zero sum game.

जीरो सम गेम को परिभाषित करें।

(iii) What is meant by Profit Constraint ?

लाभ नियंत्रण से क्या अभिप्रायः है ?

(iv) Why firm deviate from the motive of profit maximization ?

कंपनी अधिक लाभ के उद्देश्य से किन अवस्थाओं में विचलित हो जाती है ?

(v) Define Monopsony in factor market.

आदित्या मार्किट में मोनोप्सोनी को परिभाषित करें।

(vi) What is Pure public good ?

शुद्ध सार्वजनिक पदार्थ किसे कहते हैं ?

73101-800-(P-7)(Q-9)(14) (6)

(vii) What is Quasi Rent ?

क्वासी रेंट किसे कहते हैं ?

(viii) Define Negative Externalities in production.

उत्पादन में नकारात्मक बाह्यता को परिभाषित करें।

73101-800-(P-7)(Q-9)(14) (7)